



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 8, शुक्रवार शाके 1941 अगस्त 30, 2019  
Bhadra 8, Friday, Saka 1941 August 30, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur August 14, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/7472** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Council Jalore has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Jalore. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,

**Joint Secretary to Government .**

कार्यालय नगर परिषद जालोर (राजस्थान)

प्रारूप क

| क्र०सं० | वार्ड संख्या | नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण  |
|---------|--------------|---|
| 01.     | 1            | इस वार्ड सीमा बिशनगढ जाने वाली सड़क से अन्तिम किनारे फस्ट चोईस मोटर से शुरू होकर श्रीराम कॉलोनी में जुगल किशोर व राजस्थान ग्रेनाईट मार्बल को सम्मिलित करते हुए डॉ. सत्प्रकाश दार्मा के मकान से जगदीश बिशनोई के मकान को लेते हुए हवाई जहाज मैदान के बीच में सीधे श्रीराम ग्रेनाईट फैक्ट्री की तरफ जाते हुए मुख्य रोड़ बागोड़ा रोड़ के बीच ही फैक्ट्रियों को सम्मिलित करते हुए वीरम ग्रेनाईट एवं हिमालय ग्रेनाईट को सम्मिलित करते हुए महादेव ग्रेनाईट 2 फेस को लेते हुए बागोड़ा रोड़ को पार करते हुए जिला उद्योग केन्द्र वाली गली में फैक्ट्रियों को लेते हुए गली में जाते हुए बायीं बाजू गणेश नगर की ओर जाते हुए रेखा ग्रेनाईट को शामिल करते हुए राजपुरोहित के मकानों को लेते हुए लालजी के मकान से अंतिम छोर पर हंजारजी पुत्र भुराजी माली व नवाजी पुत्र वरदाजी माली के मकानों से पूर्व की ओर चौक में नारायण जी मेघवाला की गली में जाते हुए जीवजी बाजू के मकान को लेते हुए वाडिया जाने वाले रास्ते पीछे के मकान लेते हुए दाहिनी ओर के |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>मकान को लेते हुए गणेश नगर होते हुए जीवाजी माली, मसरा किस्तुरजी, कालुजी, आदि के मकानों को लेते हुए बंजारों, बालदियों की बस्ती को लेते हुए बाबूखां की ढाणी की और जाते हुए दक्षिण-पश्चिमी मकान को शामिल करते हुए बाबूखां की ढाणी से मुरडिया सड़क होते हुए पश्चिमी और जाने वाली सड़क के उत्तरी-पश्चिमी मकानों को शामिल करते हुए होकावा जाने वाले सड़क के दाईं ओर की बस्ती को शामिल करते हुए तलहटी की और होते हुए नगर परिदगादसीमा के सहारे-सहारे गौशाला के पीछे की बस्ती, नाथों, जोगीयों की बस्ती को लेते हुए केशवणा रोड़ से वृदान्वन होटल को शामिल करते हुए पुनः श्रीराम कॉलोनी से फस्ट चौईस मोटर गैराज के नुक्कड़ तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. श्रीराम कॉलोनी 2. औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय का भाग, 3. गौडीजी बस्ती 4. गणेश नगर</p>   |
| 02. | 2 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा बागोडा रोड़ स्थित रिदगाभ होण्डा शोरूम के रोड़ से शुरु होकर गौडीजी की और जाने वाले सड़क के दाहिनी बाजु के मकान बस्ती को लेते हुए जैन मंदिर गौडीजी की बगीची के पास माताजी मंदिर होते हुए किशनाराम के मकान से मौचीयों की बस्ती को लेते हुए मेघवाल का चौहटा की और जाते हुए जीमनी बस्ती को शामिल करते हुए भारमल मेघवाल के मकान को शामिल करते हुए समेलाराम माली के मकान को लेते हुए गली में प्रथम चरण की ग्रेनाईटों को शामिल करते हुए गणेश होटल व नारायणजी माली के मकान को लेते हुए समकेतिक ग्रेनाईट वाली गली को शामिल करते हुए जीमनी बाजु के ग्रेनाईटों को शामिल करते हुए पुनः रेखा ग्रेनाईट से जिला उद्योग कार्यालय की और मुख्य सड़क तक तथा मुख्य सड़क से द्राहर की और जाते हुए जीमनी बाजु के मकानों को लेते हुए समकेतिक ग्रेनाईट गली, महेन्द्रा ग्रेनाईट सुबोध स्कुल गली खटीक का मकान लेते हुए सादुलिंगजी के मंदिर को शामिल करते हुए पुनः रिदगाभ होण्डा के नुक्कड़ तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. गौडीजी बस्ती 2. मेघवालों का चौहटा 3. जीनगरों की बस्ती 4. रामपुरा कॉलोनी</p> |
| 03. | 3 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा गौडीजी मंदिर से शुरु होकर स्कुल के पास गली में बाईं बाजु के मकानों को लेते हुए भारमल के मकान को छोड़ते हुए चौधरी के मकान से समेलाराम माली के मकान को छोड़ते हुए सुखराम विशनोई की ग्रेनाईट को लेते हुए गणेश नगर जाने वाली गली के बाईं बाजु के मकानों को लेते हुए सीधे ही बंजारों की बस्ती को शामिल करते हुए औद्योगिक क्षेत्र स्कुल से सीधे गौशाल को छोड़ते हुए दक्षिण-पश्चिमी और जाते हुए बाईं बाजु के मकानों को शामिल करते हुए बाबूखां की ढाणी को शामिल करते हुए होकावा की और जाने वाली सड़क के बायीं बाजु के मकानों को लेते हुए पुनः द्राहर की और जाने वाली</p>   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>मकानों को शामिल करते हुए कच्चे रास्ते से मयुर खां के मकान को लेते हुए एवं आस-पास के मकानों को शामिल करते हुए बायीं बाजु के मकानों को लेते हुए मजरी अली के मकान से मदन माली व चौधरी के मकान को सम्मिलित करते हुए बाईं बाजु के मकानों को शामिल करते हुए स्कुल के पास वाली गली को लेते हुए उमाशंकर की गली व थानाराम प्रजापत मकान तक बाईं और के समस्त मकानों को शामिल करते हुए पुनः गौडीजी मंदिर तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. गौडीजी बस्ती 2. गणेश नगर 3. बंजारों की बस्ती 4. बाबू खां की ढाणी आदि</p>  |
| 04. | 4 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा गौडीजी मंदिर से शुरु होकर मंदिर के सामने नरपत चौधरी के मकान को लेते हुए प्रथम गली में नरपत के मकान से सिरे मंदिर जाने वाली गली के छत्रपाल माली के मकान को शामिल करते हुए दाहिनी बाजु के मकानों को लेते हुए खेताजी माली, धर्माजी लौहार के मकान को शामिल करते हुए सिरे मंदिर जाने वाले सड़क के दाहिनी और के मकानों को शामिल करते हुए शीतला माता से शिकारखाने की और जाने वाले लाल पोल के रास्ते आसन की पोल की बस्ती को शामिल करते हुए पहाडी की तलहटी-तलहटी नागणेश्वरी मंदिर, शिकारखाना, ब्राह्मणी माता मंदिर से झरणेश्वर पगलिया, सिरे मंदिर पगलिया होते हुए आस-पास के बेरों को शामिल करते हुए पानीयानाडा की बस्ती को शामिल करते हुए द्राहर की और आने वाले सड़क के बाईं बाजु के मकानों को लेते हुए राजपुद्गपक कॉलोनी को शामिल करते हुए मुडिया रोड से बाबू खां की ढाणी को छोडते हुए पानी की टंकी की और जाने वाले सड़क पर मयुर खां, पुखराज गर्ग, चम्पालाल हरिजन एवं जसोदा पुनमाजी औड़ के मकान को लेते हुए मोहनलाल के मकान से किसनाराम व हबताजी माली के मकान को लेते हुए पुनः नरपत चौधरी के मकान तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. दुदावा बस्ती 2. पानी टंकी के पास की बस्ती 3. पानीयानाडा 4. सिरे मंदिर पगलिया 5. द्रीतला माता मंदिर 6. विद्या भारती 7. आसन की पोल</p> |
| 05. | 5 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा बागोडा रोड स्थित रिद्गाभ होण्डा के सामने कब्रिस्तान के नुक्कड़ से शुरु होकर देवाराम माली के मकान से गोडीजी की और से द्राहर की और जाने वाले रास्ते से गौडीजी के सामने सरगरों के मकान को शामिल करते हुए बाईं और की आबादी को लेते हुए गौडीजी मंदिर से रबारवाडा की और जाने वाले आबादी को शामिल करते हुए बंशीलाल लौहार के मकान को शामिल करते हुए गिटको होटल की तरफ जाने वाले सड़क के बाईं और के मकान को लेते हुए गिटको के सामने स्थित शौरूम से जलदाय विभाग, मुसाफिर खाना होते हुए बाईं और के मकानों को लेते हुए पुनः कब्रिस्तान के</p>   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | मकान तक<br>प्रमुख बस्तियां :- 1. गौडीजी के सामने की बस्ती 2. होदडी की बस्ती   |
| 06. | 6 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा पुनजी कन्दोई के पिछे वाली गली में छगनपुरी के मकान से शुरु होकर आसन की और आते हुए दायीं बाजु के मकानो को लेते हुए भंवरपुरी के मकान से आसन की पोल के पास गोगाजी मंदिर को लेते हुए अचलाराम सरगरा के मकान को लेते हुए अशोक हरिजन के मकान को सम्मिलित करते हुए पहाडी की तलहटी-तलहटी कालका जी व गुप्तेश्वर जी के मंदिर को शामिल करते हुए राणा प्रताप, सेवाडी बस्ती को शामिल करते हुए राणा प्रताप से पहाडी की तलहटी-तलहटी होते हुए सामुदायिक शौचालय को सम्मिलित करते हुए पुनः द्राहर की और आने वाले बाई बाजु के मकानों को लेते हुए व्यायामशाला होते हुए लाल पोल जोन वाले रास्ते पर डायाराम सरगरा के मकानों को लेते हुए लाल पोल स्थित यासीन खान मुस्मिलान के मकान को छोडते हुए बलिया वास की और जाते हुए दोनो तरफ के मकानो को लेते हुए लादुराम मीणा प्रताप, मीठालाल आदि के मकानों को लेते हुए श्री मीठालाल खत्री के मकान की और जाते हुए डॉ0 चांदशी के मकान को लेते हुए आसन की बारी के पास गोगाजी मंदिर को लेते हुए आसन की पोल के सामने गौडीजी की और जाते हुए जीमनी बाजु के मकानों को लेते हुए भंवर पुरी वाली गली में दाई और मकानों को लेते हुए चौक में स्थित पानी के हौद के पास आसीया रबारी के मकान को लेते हुए गौडीजी की और जाने वाले सड़क के बायी बाजु के मकानों को लेते हुए बोल्डी जाव को लेते हुए शान्तिनाथ कॉलोनी को लेते हुए जुठाराम के गली से सिरे मंदिर रोड की और जाने वाली गली के बायी बाजु के मकानों को लेते हुए किनारे-किनारे पुनमजी कन्दोई, सीधे नागणेश्वरी माता मंदिर की और जाते हुए जगदीश लौहार आदि के मकान को लेते हुए आसन की पोल के सामने छगनपुरी की गली में बायीं और के मकान को लेते हुए पुनः सिरे मंदिर रोड से रबारी के मकान तक</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. सेवाडी बस्ती 2. लाल पोल 3. बलिया वास 4. सरगरों का मौहल्ला 5. पुराना मेणों का वास 6. शान्तिनाथ कॉलोनी 7. बोल्डी जाव</p> |
| 07. | 7 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा लाल पोल के अन्दर से शुरु होकर आसिया के मकान हीरा रबारी के मकान को शामिल करते हुए दायी और के मकान लेते हुए मीठालाल खत्री के मकान को लेते हुए तथा द्रांकर प्रजापत के मकान को लेते हुए उत्तर की और गली में जाते हुए रेबारियों के मकान को लेते हुए जेडीबी के मकान को लेते हुए निम्बाराम के मकान से रणछोडाराम के मकान से दायीं बाजु के मकान को लेते हुए डॉ. अल्ताफ अली के गली में डॉ0 बी. एल. खत्री, लियाकत अली के मकान को लेते हुए उत्तर दिशा में रा0उ0प्रा0वि0 लाल पोल को शामिल</p>   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>करते हुए लाखाराम चौधरी के मकान को लेते हुए प्राईवेट बस स्टेण्ड के सामने शमशेर अली कम्पाउण्डर के मकान को शामिल करते हुए इसी गली में मंगलाराम व रगाराम आदि के मकानों को लेते हुए श्यामजी माली के मकान को लेते हुए लाल पोल की और जाने वाली गली सड़क के दायी और के मकान को लेते हुए पुराना गैस गोदाम व नुक्कड पर केवल चंद मोची के मकान को लेते हुए पुनः लाल पोल के नुक्कड तक की दायिनी बाजु की बस्ती को सम्मिलित करते हुए लाल पोल के अन्दर यासीन खां के मकान को लेते हुए बलिया वास की और जाते हुए लादाराम, प्रताप मीणा के मकान को लेते हुए हनुमानजी मंदिर से आसन की पोल की और जाते हुए जीमनी बाजु के मकान लेते हुए डॉ० चांदसी के मकान से भंवरसिंह के मकान होते हुए रणछोडाराम के मकान से आसन की पोल को छोड़ते हुए भंवरपुरी वाली गली से छागनपुरी के गली की नुक्कड तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. रेबारवाड़ा 2. बलिया वास 3. बापु नगर 4. पुराना गैस गोदाम</p>  |
| 08. | 8 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा गिटको होटल से शुरू होकर डॉ० अल्लताफ हुसैन वाली गली में पूर्व की और जाते हुए दायी बाजु के मकान को लेते हुए रा.उ.प्राथमिक विद्यालय लाल पोल को छोड़ते हुए लाखाराम के मकान को लेते हुए सामने प्राईवेट बस स्टेण्ड को लेते हुए वगताराम के मकान को शामिल करते हुए ट्रांकर भादरू के मकान तक। ट्रांकर भादरू के मकान से सीधे लाल पोल जाने वाले दायी बाजु के मकान लेते हुए लाल पोल के अन्दर जाने वाली बस्ती धुणिया जाव, मोची, सरगरा, ताराराम राव, पारसीया पुत्र सूराराम भरत मेघवाल से वागेश्वर मंदिर व जाव एवं रा०प्रा० चिकित्सा केन्द्र को सम्मिलित करते हुए किला जाने वाली कच्चे रास्ते में पहाड़ी के तलहटी-तलहटी से पुनः धोरे की ढाल-ढाल साईन स्कूल को लेते हुए ठाकुर द्वारा जाने वाले सड़क के दोनों ओर के मकान को लेते हुए सैय्यदवाड़ी व सैय्यदवाड़ी से मेहरों का वास कीड़ और जब्बराराम मकान रमजान खां का मकान को लेते हुए धोरे से धुणीया मठ की सड़क से धुणिया को शामिल करते हुए भलाराम मीणा का मकान छोड़ते हुए लाल पोल से तिलक द्वार जाने वाली सड़क दायी बाजु के मकान को लेते हुए बडी पोल उम्मेदराज सोलंकी से दुकान को शामिल करते हुए प्रहलाद चौक में रमेश, बिनानी सीमेंट दुकान से सिरे मंदिर रोड़ पर नैनाराम, मोहनलाल, ओखाराम माली के मकान से लाल पोल के बाहर लखारा के मकान व पुखराज मेघवाल के मकान तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. बापू नगर 2. गैस गोदाम के सामने का भाग 3. लाल पोल के बाहर बापू नगर</p> |
| 09. | 9 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा बडी पोल के अन्दर स्थित सुल्तान खां के मकान</p>  |

|     |    |  |
|-----|----|--|
|     |    | <p>से अहमद सैय्यद के मकान व सदर बाजार जाने वाली गली के जीमनी बाजु के मकान लेते हुए पिंजारों की मस्जिद व तोपखाना को शामिल करते हुए तोपखाने के पास पीढी चौक हैड पम्प से गोविन्द खत्री वाली कालूजी के मकान लेते हुए हिगलाज माता मंदिर को छोड़ते हुए दायिनी बाजु के मकान लेते हुए ठाकुर द्वारा के पास सैय्यदवाडी को द्रामिल करते हुए पूलिया की और जाने वाली गली में जब्बरदास व रमजान के मकान को छोड़ते हुए दाहिनी बाजु के मकान को छोड़ते हुए मेणो के सामने के मकानो को लेते हुए निसार खां के मकान से भबुताराम मीणा व यासीन खां के मकानों को लेते हुए आमने-सामने के मकान व दाही और के मकान को लेते हुए गौरव पथ से पुनः बडी पोल तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. तोपखाना 2. पिंजारो की मस्जिद 3. मेहरों का वास 5. सैय्यदवाडी 6. धुणिया मठ</p>  |
| 10. | 10 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा चम्पालाल कुआड़ की दुकान से शुरु होकर रबारवाडा जाने वाली गली में पुनमचंद कन्दोई की दुकान अम्बालाल सोनी की दुकान को लेते हुए खानपुरा वास जाने वाली गली रोड़ के जीमजी बाजु के मकान को लेते हुए लेखराज जैन के मकान को लेते हुए जीमनी बाजु के मकानों को शामिल करते हुए पहाडी की और केरला वाली गली में कोठारी के मकान से हंसाराम जीनगर के मकान को शामिल करते हुए पहाडी की तलहटी-तलहटी हब्शियों की मस्जिद को लेते हुए जीमनी बाजु के मकान लेते हुए लियाकत अली के गली के दोनो तरफ के मकान को लेते हुए मोची की बस्ती की और जाते हुए तीन पूर्व कार्यशाला होते हुए नैनमलजी जैन के मकान की गली में जाते हुए दाहिनी तरफ के मकान लेते हुए वासपुजी चौक व वासपुजी चौक से भण्डारियों के वास में धर्मशाला को शामिल करते हुए द्राहर की और आते हुए आजाद चौक में किशोर जी मुथा के मकान से नीचे की और वल्लभ भण्डारी की गली में आते हुए तोपखाना चौक से कालु खां की चक्की को शामिल करते हुए चुडीगरों की गली के जीमनी बाजु के मकानों को लेते हुए सुभाद्गा मार्केट में दायीं और के दुकानो को लेते हुए मस्जिद व सांड वाव को शामिल करते हुए बाई और की दुकानों को लेते हुए पुनः चम्पालाल कुआड़ की दुकान तक</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. खरतरा वास 2. राज मंदिर 3. कांकरिया वास 4. चुडीगरों की बस्ती</p> |
| 11. | 11 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा खानपुरा वास स्थित केरला वाली गली से शुरु होकर पहाडी की और हंसाराम जीनगर के मकान से पहाडी की तलहटी होते हुए किला घाटी की और जीमनी बाजु के मकानों को लेते हुए किला घाटी, सिलावटों का वास, मौचियों की बस्ती आदि को शामिल करते हुए बाजार में जाने वाले सड़क के मकानो को लेते हुए श्री नैनमल जैन के मकान की और दायी बाजु के</p>  |

|     |    |   |
|-----|----|---|
|     |    | <p>मकानो को लेते हुए पुनः वासपुजी चौक से भण्डारियों का वास सोनराज भण्डारी के मकान वाली गली के बायीं बाजु के मकानों को लेते हुए सैय्यदवाडी के नुक्कड़ से हिंगलाज माता मंदिर होते हुए पीठी चौक से तोपखाना डॉ० वल्लभ भण्डारी से दक्षिण में जाते हुए दायीं और के मकानों को लेते हुए पुनः वासपुजी चौक से मामाली पाड़ा सेवगों का धोरा के मकानों को लेते हुए तलहटी तक सभी बायीं बाजु के मकानो को लेते हुए किला घाटी से लियाकत अली के मकान तक पुनः मोचियोंक की बस्ती में जाते हुए नैनमल जी के मकान की और जाते हुए किशोर मुथा के मकान से आजाद चौक में होते हुए सायरमल चौधरी के मकान से होते हुए धर्मशाला को शामिल करते हुए बायीं और के मकानों को लेते हुए पुनः वासपुजी चौक तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. हब्शियों का वास 2. किला घाटी 3. सिलावटों का वास 4. जैन बस्ती 5. सेवको की बस्ती 6. वासपुजी चौक, फोलावास, 7. भण्डारियों का वास</p> |
| 12. | 12 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा ट्रांकरजी माली चक्की वाले के मकान से शुरु होकर बड़ी पोल प्रहलाद चौक की और जाने वाले बड़ी पोल के बाहर दशा माता मंदिर को लेते हुए बड़ी पोल के बाहर कस्तुरबा कॉलोनी को शामिल करते हुए तिलक द्वार के बाहर गार्डन की दिवार से हरिदेव जोशी सर्किल होते हुए दायीं बाजु के मकान को लेते हुए बागोड़ा रोड़ मुख्य सड़क होते हुए भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक योजना, बस स्टेण्ड होते हुए गिटको होटल से लाल पोल स्कुल तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. बापू नगर 2. कस्तुरबा कॉलोनी 3. मौचियों की बस्ती 4. व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स 6. बस स्टेण्ड</p>   |
| 13. | 13 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा बड़ी पोल से शुरु होकर गौरव पथ होते हुए तिलक द्वार जाने वाली सड़क पर अर्बुदा देवी मंदिर को शामिल करते हुए जागरीयों का सीदा से कुम्हारों के वास होते हुए गोगाजी मंदिर के दाहिनी और की बस्ती लेते हुए कृद्गण मंदिर से चुडीगरों का मौहल्ला, सदर बाजार की गली में जाते हुए दायीं बायें के मकानो को लेते हुए कृद्गण मंदिर से दायीं बाजु और के मकानों को लेते हुए कृद्गण मंदिर से सदर बाजार जाने वाली सड़क जीमनी बाजु के मकान को लेते हुए बाबूलाल दर्जी के मकान को लेते हुए चडीगरो इम्मतीजान अली के मकान को सम्मिलित करते हुए गली में तोपखाना की और आते हुए जीमनी बाजु के मकान लेते हुए दिलीप खत्री के मकान से पिंजारों की मस्जिद के सामने के भाग को सम्मिलित करते हुए पुनः बड़ी पोल जाने वाले पर दायिनी और के मकान लेते हुए बड़ी पोल स्थित नारायण हीरागर के मकान तक।</p>   |

|     |    |  |
|-----|----|--|
|     |    | प्रमुख बस्तियां :- 1. सरगरोँ का वास 2. कुम्हारोँ का वास 3. घाँचियोँ की बस्ती 5. खत्रियोँ का बड़ा वास   |
| 14. | 14 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा तिलक द्वार से शुरु होकर गौरव पथ जाने वाली सड़क के दायी बाजु के मकान को लेते हुए अर्बुदा मंदिर को लेते हुए जागरियो के सीमा से कुम्हार वाड़ा जाने वाली सड़क के दायी बाजु के मकानो को लेते हुए गोगाजी मंदिर को लेते हुए कृद्गणा मंदिर के सामने भैरूजी के मकान से घाँचियोँ की पिलानी में नीचे उतरते हुए रामावत के मकान से तिलक द्वार के बाहर सैय्यद इलेक्टीक्लस स्टोर के दायी बाजु के मकान को लेते हुए भारत माता चौक से तिलक द्वार तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. कुम्हारोँ का वास 2. घाँचियोँ की पिलानी 3. तिलक द्वार 5. भारत चौक</p>  |
| 15. | 15 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा माणक चौक स्थित पिन्टु जीनगर की दुकान से शुरु होकर वीरमदेव चौक, धानमण्डी जाने वाली सड़क के दायी ओर की दुकानों व मकानों को लेते हुए थानजी की दुकान से गणेश मंदिर धानमण्डी आदि के दोनो ओर के मकान लेते हुए सायर पोल स्थित द्रयामजी जरदा वाल के सामने किराणे की दुकान से राकेश सोनी की दुकान लेते हुए सरावास की तरफ दोनो ओर के मकान लेते हुए विश्वकर्मा मंदिर से जाकर म्युजियम सेन्टर पुनः जीवणी बाजु सरावास कार्नर पर मुस्तफा मास्टर के मकान से गांधी चौक जाने वाली सड़क के जीवणी बाजु के मकान लेते हुए गांधी चौक से प्रताप चौक की ओर जाने वाली गली के डावी बाजु के मकानों को लेते हुए गोमती बाई के मकान से जलन्धरनाथ धर्मशाला व मुरली कम्पाउण्डर के अस्पताल से रामदेव की गली, अखाड़ा वाली गली से पुनः भारत म्युजिक तक</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. धानमण्डी 2. वीरमदेव चौक 3. सरावास 4. सरदार पटेल मार्ग 5. अखाड़ा वाली गली</p> |
| 16. | 16 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा उपर कोटा स्थित सिकन्दर अली के मकान से शुरु होकर हरिजन बस्ती की ओर जाने वाली गली में मेघवालोँ का वास (पुराना) को शामिल करते हुए चुन्नीलाल हरजिन के मकान के सामने से गुरूद्वारा जाने वाली गली के नुक्कड़ पर आईदान के मकान को लेते हुए बाई और के मकान को लेते हुए पुराने मेघवालोँ के मकान गली को शामिल करते हुए किशन महेश्वरी के मकान से गुमान सिंह के मकान को लेते हुए डावी बाजु के मकान को लेते हुए गुरूद्वारा का शामिल करते हुए मुखय सड़क पर अम्बालाल सोनी की दुकान को लेते हुए गांधी चौक की ओर जाते हुए डावी बाजु के मकान को लेते हुए सम्मों का वास, जवाहर चौक आदि सम्मिलित करते हुए गणेश मंदिर से सायर पोल से तपावास, मेरवाड़ा बस्ती को शामिल करते हुए चम्पालाल कुआड़ की दुकान से</p>   |

|     |    |   |
|-----|----|---|
|     |    | <p>खानपुरा वास में जाने वाले रास्ते से कोठारी के मकान से पुनः उपरकोटा की ओर आते हुए सिकन्दर अली के मकान तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. पुरा मोहल्ला 2. सिन्धी कॉलोनी 3. सम्मो का वास 4. गुजरो का मोहल्ला 5. जवाहर चौक 6. खरतरा वास, तपावास</p>  |
| 17. | 17 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा केरला वाली गली से शुरू होकर उपर कोटा मस्जिद, खानपुरा वास के बायीं बाजु के मकानों को लेते हुए उपर कोटा मस्जिद से सिकन्दर अली एडवोकेट के मकान को लेते हुए पुनः उपरकोटा से सैय्यदों की बस्ती जाने वाली जीमनी बाजु के मकानों को लेते हुए मुमताज अली के मकान को शामिल करते हुए हरिजन बस्ती स्थित चुन्नीलाल का मकान लेते हुए हरिजन बस्ती में जाने वाली सड़क जीमनी बाजु के मकान लेते हुए रूपाराम हरिजन के मकान से पुनः झरणा व मोईलों की बस्ती को शामिल करते हुए उपर कोटा मस्जिद होते हुए पहाड़ी की तलहटी-तलहटी होते हुए खानपुरा वास का उपरी भाग को लेते हुए पुनः केरला वाली गली में हंसाराम के मकान तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. उपरकोटा 2. खानपुरा वास 3. हरिजन बस्ती</p>  |
| 18  | 18 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा पहाड़ी की तलहटी स्थित मांगीलाल हरिजन के मकान से शुरू होकर हरिजन बस्ती में आने वाले जीवणी बाजु के मकान लेते हुए व गलियों को शामिल करते हुए भबुताराम परमार के मकान को शामिल करते हुए श्री चम्पालाल हरिजन के मकान से जीवणी बाजु के मकान को लेते हुए भूराराम गर्ग के मकान को लेते हुए मंगलसिंह के मकानों को लेते हुए जीवणी बाजु के मकान लेते हुए मुख्य सड़क पर स्थित देवीचन्द के मकान को लेते हुए पूर्व की ओर सुरज पोल के मकान लेते हुए जीवणी बाजु के मकान लेते हुए सुरजपोल की ओर जाते हुए जीमनी बाजु के मकानों को लेते हुए सुरजपोल से कासम बेरा सुरज पोल होते हुए सत्यनारायण, जाकिर होते हुए दायीं ओर के मकानों को लेते हुए गोविन्द गढ से मेणों का वास के मकान को लेते हुए हंजाराम मकान से जीवणी बाजु के मकान लेते हुए मगाराम मीणा के पास जाने वाली सड़क जीवणी बाजु के मकान लेते हुए तगाराम हीरागर, खादी भण्डार वाले का मकान, वन विभाग में श्री सिंह के मकान से तलहटी-तलहटी होते हुए गोविन्द गढ से पत्थर की फैक्ट्री से पहाड़ी की तलहटी-तलहटी होते हुए पुनः मांगीलाल हरिजन के मकान तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. हरिजन बस्ती 2. खानपुरा वास 3. पुरा मोहल्ला 4. गुरूद्वारा 5. गोविन्दगढ 6. मेणों का वास</p> |
| 19. | 19 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा सुरज पोल से शुरू होकर बापू बाल मंदिर स्कूल को सम्मिलित करते हुए अस्पताल चौराहे की ओर स्थित डाक बंगला अस्पताल को सम्मिलित करते हुए डावी बाजु के मकानों को लेते हुए गिरधारीलाल/सिहांग,</p>   |

|     |    |   |
|-----|----|---|
|     |    | <p>मुकेश सिंह के मकान को लेते हुए अन्जुमन कॉलोनी को छोड़ते हुए मीठालाल भील के मकान को छोड़ते हुए पीछे डा.बी. के खत्री, चम्पालाल परिहार देवासी छात्रावास होते हुए डावी बाजु के मकान लेते हुए थानजी सुथार भगवान सिंह जी के मकान लेते हुए तिलक द्वार तक पुनः मामाजी मंदिर की और गली के मकान को लेते मुरजी मोची कर अस्पताल, जलन्धरनाथ धर्मशाला, मामाजी मंदिर को जाते हुए डावी बाजु के मकानों को लेते हुए रमेश गुप्ता के मकान को लेते हुए बालिका विद्यालय की और प्रताप चौक से गोगडी वाव की और लेक्चर सोनी के मकान को लेते हुए गोगडीवाव व सुथारों के मकान को लेते हुए गांधी चौक, गांधी चौक से जीवी बाई कॉम्पलेक्स होते हुए पुनः सुरजपोल की और जाते हुए डावी बाजु के मकान लेते हुए पुरा मोहल्ला के भीमाराम की दुकान के आगे श्री जैन के मकान से उपरी भाग होली चौक के डाबी बाजु के मकान को शामिल लेते हुए अम्बालाल व्यास के मकान को शामिल करते हुए शिव गली के बाहर मुख्य सड़क पर पोरवाल जाति से मेहरा तक</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. आंखो का अस्पताल 2. प्रताप चौक 3. ब्रह्मपुरी 4. पुरा मोहल्ला 5. गोगडीवाव 6. जीवी बाई कॉम्पलेक्स</p>   |
| 20. | 20 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा अस्पताल से भील बस्ती जाने वाली सड़क के दोनों ओर के मकान लेते हुए अन्जुमन कॉलोनी मीठा भील के मकान से कासम खां के मकान को शामिल करते हुए भील बस्ती के सम्पूर्ण मकानों लेते हुए अस्पताल चौराहें से बागोड़ा रोड़ की और जाने वाली मुख्य सड़क से श्री भण्डारी मेडिकल से मोहनजी छीपा विश्वकर्मा धर्मशाला व एस0के0 पेट्रोल पम्प होते हुए डावी बाजु के मकानों को लेते हुए तिलक द्वार व्यावसायिक कॉम्पलेक्स से छतरी को शामिल करते हुए तिलक द्वार के नुक्कड़ तक पुनः आर.एस. बदर्स प्रेट्रेल पम्प के सामने स्वास्तीक स्टोर से हैड पोस्ट ऑफिस की और जाने वाली गली के जीमनी बाजु के मकानों को लेते हुए सीधे सर्किल से आर.0के0 टिम्बर से धोरे पर हेमेन्द्र परमार तक जीवणी बाजु के मकानों लेते हुए हेमराज टेन्ट हाऊस के मकान से गणेशाजी सुथार, मिश्रीमल गहलोत एवं वाहन संघ के प्लॉटों को शामिल करते हुए कलेक्टर कार्यालय बाउण्ड्री तक पुनः पूर्व की और जेल के सहारे सहारे होते हुए कलेक्ट्रेट की दीवार के साथ साथ जैन बोर्डिंग्स के सामने कलेक्ट्रेट के नुक्कड़ होते हुए दायी और के मकान से पुनः अस्पताल चौराहें कान्तीचंद के मकान तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. मानपुरा कॉलोनी 2. भील बस्ती 3. पुराना बस स्टेण्ड 4. खातियों की बस्ती</p> |
| 21. | 21 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा अस्पताल चौराहा से रेल्वे स्टेशन रोड़ पर नगर परिदगाद, कार्यालय एसबीआई बैंक को शामिल करते हुए आयुशी गुजरात</p>   |

|     |    |   |
|-----|----|---|
|     |    | <p>अस्पताल तक समस्त दायां भाग एवं आयुशि गुजरात अस्पताल के पास वाली रोड़ से जैन आराधान भवन, कल्याण नगर के मकानों को शामिल करते हुए मांगीलाल पुखराज के घर को छोड़ते हुए जैन बोर्डिंग एवं पुलिस लाईन दीवार के सहारे राजेन्द्र नगर मुख्य सड़क तक का दायां भाग एवं राजेन्द्र नगर मुख्य सड़क पर पुलिस लाईन दीवार से राजेन्द्र नगर स्कूल शामिल करते हुए नगर परिदगाद, कार्यालय हॉस्पिटल चौराहा तक समस्त दायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. राजेन्द्र नगर 2. मिडिकल इनकम गुरुप कॉलोनी 3. कार्यालय नगर परिदगाद, जालोर</p>   |
| 22. | 22 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा सुरज पोल चौराहे पर स्थित जबरनाथ महादेव मंदिर से जाने वाले हॉस्पिटल चौराहे मार्ग के दाये बाजु के सभी सरकारी आवास को लेते हुए, हॉस्पिटल चौराहे से राजेन्द्र नगर मुख्य मार्ग पर दायी और के नगर पालिका आवास, पालीवाल कॉम्प्लेक्स, विनित फैन्सी स्टोर से दायी और स्थित मुख्य मार्ग के मकान, हनुमान गली के मकान लेकर, मुख्य मार्ग के मकान एवं जागनाथ मंदिर मार्ग के दायी तरफ के गणेशाराम मकान के मकान लेते हुए एम.एल. बोहरा के मकान को शामिल करते हुए भवानीसिंह के मकान को शामिल करते हुए एवं भवानी सिंह मकान गली के दायी और के समस्त मकान को शामिल करते हुए भगत सिंह स्टेडियम से भीनमाल मुख्य सड़क के दाये भाग को शामिल करते हुए तथा भीनमाल मुख्य सड़के से सुरज पोल चौराहा की दायी और के शामिल करते हुए सुरज पोल स्थित जबरनाथ महादेव मंदिर तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. नगर परिदगाद जालोर आवासीय कॉलोनी 2. संजय नगर</p> |
| 23. | 23 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा सुरजपोल पर स्थित हिम्मताराम माली की होटल से शुरु होकर भीनमाल मुख्य सड़क पर देवाराम जी के मकान तक का दायां भाग को शामिल करते हुए बावड़ी वाली गली में कालुराम जी मेघवाल के घर तक का दायां भाग शामिल करते हुए खीमाराम, थानाराम को शामिल करते हुए दायां भाग व हरिजन द्रमशान भूमि को छोड़ते हुए तलहटी के सहारे-सहारे मीणों का चौक जाने वाले रास्ते पर नाथुराम, गणेशाराम मीणा के घर व दायां भाग को सम्मिलित करते हुए मांगीलाल जी घर तक दायां भाग व मांगीलाल के घर से हिम्मताराम माली की होटल तक सुरजपोल तक दायां भाग।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. शान्ति नगर 2. सरगरों का वास 3. बिजली घर के सामने की बस्ती 4. मेघवालों का वास</p>  |
| 24. | 24 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा भीनमाल मुख्य सड़क पर स्थित हीरालाल जी सेवेक के मकान तक से केजीएन मोटर्स, मीरादातार को शामिल करते हुए भैराराम जी मेघवाल के मकान तक का दायां भाग को शामिल करते हुए</p>   |

|     |    |  |
|-----|----|--|
|     |    | <p>तुलसाराम पुत्र नवाराम मेघवाल के मकान तक का दायां भाग को शामिल करते हुए तलहटी के सहारे-सहारे द्रमशान भूमि को शामिल करते हुए पन्नालाल, नरतपलाल, तोलाराम, जी पीपा के मकान को शामिल करते हुए समस्त दायां भाग एवं तोलाराम जी पीपा के मकान से हीरालाल सेवक के मकान तक का समस्त दायां भाग।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. शान्तिनगर, 2. खादी भण्डार के सामने की बस्ती 3. ट्रक यूनियन कार्यालय</p>  |
| 25. | 25 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा राजेन्द्र नगर मुखय सड़क पर स्थित अमराराम माली के मकान से जागनाथ महादेव मंदिर जाने वाली सड़क के बायीं तरफ के मकान लेते हुए जागनाथ मंदिर, भगत सिंह स्टेडियम तक की गली का बायां भाग लेते हुए, भगत सिंह स्टेडियम से नोबल वेलफेयर सै0 स्कुल तक का बायां भाग शामिल करते हुए भीनमाल मुखय सड़क से श्रीराम हॉस्पिटल शामिल करते हुए मीरा दातार चौराहा तक समस्त बायां भाग तथा मीरा दातार चौराहा से जोधपुर मिद्गठान भंडार, नागणेश्वरी प्रोवीजन स्टोर, युसुफ खां तक भीनमाल बाईपास रोड़ के बाये भाग को शामिल करते हुए पंचवटी हनुमानजी मंदिर रोड़ से युसुफ खां से हरिसिंह के मकान तक के बाये मकान शामिल करते हुए हरिसिंह के मकान से गुर्जर गणेश मंदिर की गली के बायीं भाग को शामिल करते हुए, गुर्जर गणेश मंदिर से बचपन प्ले स्कुल, गंगाराम गुर्जर तक के समस्त बाये और के मकान शामिल करते हुए राजेन्द्र नगर मुखय सड़क पर गंगाराम गुर्जर से अमराराम माली तक के समस्त बाये और के मकान तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. राजेन्द्र नगर 2. शिवगली 3. भगत स्टेडियम 4. गुजराँ का वास</p> |
| 26. | 26 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा भीनमाल बाईपास रोड़ पर स्थित महादेव दुध डेयरी से गणपत सिंह के मकान तक दायां भाग शामिल करते हुए गणपतसिंह के मकान से प्रवीणजी गांधी के मकान को शामिल करते हुए मधुश्यामजी गुप्ता के मकान तक का दायां भाग को सम्मिलित करते हुए बिशनसिंह के घर तक का दायां भाग सम्मिलित करते हुए आशापूर्णा मंदिर के पास से आशापूर्णा कॉलोनी के सहारे-सहारे नारनाडी हाऊस को छोड़ते हुए मंगलाराम जी सैन के घर तक दायां भाग शामिल करते हुए बाबुभाई के बेरे की माठ के सहारे-सहारे सगराम जी का बेरा के सहारे-सहारे धवला रोड़ तक का दायां भाग शामिल करते हुए धवला रोड़ भीनमाल मुखय सड़क तक का दायां भाग व भीनमाल मुखय सड़क से मीरादातार क सामने गहलोट रेडियम एवं स्कीरन आर्टस तक का दायां भाग को शामिल करते हुए गहलोट रेडियम एवं स्कीरन आर्टस से भीनमाल बाईपास रोड़ पर स्थित महादेव दुध डेयरी तक का दायां भाग</p>   |

|     |    |  |
|-----|----|--|
|     |    | प्रमुख बस्तियां :- 1. आदर्श नगर 2. आशापूर्णा कॉलोनी 3. केसरनाथ कॉलोनी  |
| 27. | 27 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा भीनमाल मुख्य सड़क पर स्थित अमरचंद जी खटीक के मकान से मदरसा वाली गली के कोने पर देवाराम मीणा के मकान तक के दाये भाग को शामिल करते हुए मदरसा वाली गली में हनीफ भाई के मकान को सम्मिलित करते हुए नासीर खां के मकान तक का दायां भाग व रफीक खां, अनवर खां के मकान को शामिल करते हुए तलहटी तक का दायां भाग व तलहटी के सहारे-सहारे तलहटी से मांगीलाल के मकान को शामिल करते हुए अमरचंद जी खटीक के मकान तक का दायां भाग।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. तासखाना बावड़ी 2. मुस्लिम बस्ती</p>  |
| 28. | 28 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा भीनमाल मुख्य सड़क पर स्थित मदरसा वाली गली में द्रांकरलाल पुत्र खसाराम जी के मकान से भोमाराम भील के घर तक दायां भाग शामिल करते हुए पीरूखां, पीन्टा पुत्र भोमाराम के मकान तक दायां भाग शामिल करते हुए तलहटी के सहारे-सहारे भीनमाल मुख्य सड़क पर मामाजी के थान तक व सीएमएचओं ऑफिस से रेल्वे पटरी तक रेल्वे पटरी के सहारे-सहारे धवला रोड़ तक का बायां भाग को शामिल करते हुए धवला रोड़ से भीनमाल मुख्य सड़क तक का बायां भाग व धवला रोड़ से मदरसा वाली गली से द्रांकरलाल खसाराम के घर तक बायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. मामाजी थान 2. महादेव नगर 3. वीरम नगर 4. खसरा संख्या 2270, 2268 की बस्ती 5. पुलिस थाना 6. फायर स्टेशन 7. मेघवाल समाज छात्रावास</p> |
| 29. | 29 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा श्री राजपुत छात्रावास के पास पानी के नाले से बायां भाग एवं मगनाराम के मकान से संग्रामजी का बेरा की दीवार तक का बायां भाग व संग्रामजी का बेरा के सहारे-सहारे धवला रोड़ तक का बाया भाग, धवला रोड़ से रेल्वे लाईन तक का बाया भाग रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे प्रेम नगर को छोड़ते हुए राजपुत छात्रावास तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. न्यू रामदेव कॉलोनी 2. मालनाथ की ढाणी 3. धवला रोड़ बस्ती</p>  |
| 30. | 30 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा आहोर मुख्य सड़क पर चुंगी नाका के पास रोड़ की दुसरी तरफ रमेश राव के मकान से राव समाज मंदिर तक का दायां भाग व राव समाज मंदिर से रणछोड़ जी के मकान तक हाई टेशन लाईन के नीचे तक का दायां भाग, हाई टेशन लाईन से पुनी देवी पुनमाराम के मकान तक का दाया भाग व धनराज जी घर के पास वाली गली से मुड़ते हुए वेलासनी के घर तक का दायां भाग, वेलासनी के घर से हाईटेशन लाईन तक का दायां भाग हाईटेशन लाईन के नीचे से सुमेर शिह के घर तक का दायां भाग सुमेरसिंह के घर से</p>  |

|     |    |  |
|-----|----|--|
|     |    | <p>ओमप्रकाश के घर तक का दायां भाग ओमप्रकाश के घर के पास नाले से राजपुत छात्रावास तक का दायां भाग व राजपुत छात्रावास के सामने से रेल्वे की तरफ जाते हुए प्रेम नगर व सर्किट हाऊस को शामिल करते हुए सर्किट हाऊस से पुनः द्राहर की तरफ जाते हुए दाये तरफ के मकान को शामिल करते हुए रमेश राव के मकान तक।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. रामदेव कॉलानी 2. राव समाज कॉलोनी 3. प्रेमनगर</p>  |
| 31. | 31 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा भीनमाल बाईपास रोड़ पर स्थित उमाराम के मकान से राजपुत छात्रावास रोड़ पर नवाराम के मकान तक का दायां भाग नवाराम के मकान से अमरसिंह के मकान तक दायां भाग एवं रेगाराम के मकान से गौतमजी के मकान तक का दायां भाग, रेगाराम के मकान से हाईटेशन लाईन के नीचे पुनमारामजी की चक्की तक का दायां भाग पुनमाराम जी की चक्की से बाबुभाई का बेरा की माठ तक, माठ के सहारे स्थित मंगलाराम के घर को छोड़ते हुए पास वाली गली में नारनाडी हाऊस को शामिल करते हुए आशापूर्णा कॉलोनी के सहारे-सहारे आशापूर्णा माता मंदिर तक का दायां भाग, आशापूर्णा मंदिर के पास स्थित दौलतराम बालात, डी0डी. ठाकुर साहब के मकान को शामिल करते हुए दायां भाग एवं प्रितम सिंह, धापुदेवी के मकान को शामिल करते हुए भीनमाल बाईपास रोड़ पर स्थित उमाराम के मकान तक का दायां भाग।</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. न्यू रामदेव कॉलोनी</p>                                    |
| 32. | 32 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा भीनमाल बाईपास रोड़ पर स्थित जागृत हनुमान जी का मंदिर के पास स्थित नरींगाराम यादव के मकान से कॉलेज तिराहा तक का दायां भाग, आहोर मुखय सड़क पर अधिशाषी अधिश अभियंता डिस्काम के निवास से पुराना चुंगी नाका तक विजय पैराडाईज को शामिल करते हुए समस्त दायां भाग शामिल करते हुए चुंगी नाका से राव समाज चण्डी मंदिर जाने वाले रास्ते पर पारस परिहार के मकान को शामिल करते हुए समस्त दायां भाग के मकानों को शामिल करते हुए पारस परिहार के मकान से मंशाराम जी के मकान को शामिल करते हुए रणछोड़जी के मकान तक समस्त दायां भाग हाईटेशन लाईन के नीचे रणछोड़ जी के मकान से हीरालाल परमार के खाली प्लॉट तक समस्त दायां भाग को शामिल करते हुए हीरालाल परमार के खाली प्लॉट से नरेगाराम यादव के मकान समस्त दायां भाग के मकान को शामिल करते हुए</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. रामदेव कॉलोनी 2. द्रान्तिनाथ बी ब्लॉक 3. बिजली आवासीय कॉलोनी</p> |
| 33. | 33 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा राजेन्द्र नगर मुखय रोड़ पर स्थित पंचवटी हनुमान</p>  |

|     |    |   |
|-----|----|---|
|     |    | <p>मंदिर से आर्यन पब्लिक स्कूल तक का बायां भाग व आर्यन पब्लिक स्कूल से K.L. निधिन के मकान का बायां भाग लेते हुए भीनमाल बाईपास रोड़ पर स्थित श्रीमाली समाज द्रमशान को द्रामिल करते हुए बायां भाग लेते हुए भीनमाल बाईपास रोड़ पर रामदेव मंदिर, राद्गटीरय जागृति संस्थान शामिल करते हुए सांवलाराम के प्लॉट तक का बायां भाग लेते हुए पंचवटी हनुमान मंदिर तक का बायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. नई ब्रहम्पुरी 2. राजेन्द्र नगर 3. पुरोहित हॉस्टल 4. भीनमाल बाई पास रोड़ बस्ती</p>   |
| 34. | 34 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा रेल्वे स्टेशन मुखय सड़क पर जैन बोर्डिंग से रेल्वे स्टेशन तक का दायां भाग लेते हुए रेल्वे स्टेशन से रेल्वे गेस्ट हाऊस को शामिल करते हुए कृद्गिा उपज मंडी तक समस्त दायां भाग एवं मैन आहोर रोड़ से कॉलेज चौराहा से आहोर कॉलोनी, बिजली घर एवं पुलिस लाईन को शामिल करते हुए भीनमाल बाईपास रोड़ पर मुखय राजेन्द्र नगर सड़क तक का दायां भाग, राजेन्द्र नगर मुखय सड़क पर पुलिस लाईन क्वाटारों को शामिल करते हुए पुलिस लाईन की दीवार के सहारे-सहारे व जैन बोर्डिंग की दीवार के सहारे जैन बोर्डिंग को शामिल करते हुए समस्त दायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. पुलिस क्वार्टर 2. जज क्वार्टर 3. आहोर कॉलोनी 4. लक्ष्मी नगर 5. पोलजी नगर 6. नागौरी कॉलोनी</p>  |
| 35. | 35 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा आहौर चौराहा से जलदाय विभाग जाने वाली सड़क का दायां भाग शामिल करते हुए बीएसएनएल आवासीय क्वार्टर से नहर के उपर होते हुए मामाजी का मंदिर को शामिल करते हुए ऋषभ नगर चौराहा तक समस्त दायां भाग व ऋषभ नगर चौराहा से रूप नगर रोड़ पर रमेश पुरी पुत्र प्रताप पुरी क प्लॉट को शामिल करते हुए रूप नगर से एफ.सी.आई गोदाम जाने वाले रेल्वे क्ऱेसिंग तक का समस्त दायां भाग लेते हुए रेल्वे क्रोसिंग से पटरी के सहारे-सहारे पुराने फाटक के सामने महेशपुरा जाने वाली रोड़ का समस्त दायां भाग लेते हुए महेशपुरा रोड़ से खुमा की ढाणी, गुरु राजेन्द्र सुरी कॉलोनी एवं उकाराम की ढाणी को सम्मिलित करते हुए रेल्वे स्टेशन से गटाराम की दुकान तक दायां भाग तथा रेल्वे स्टेशन से आहोर चौराहा तक द्राहीद स्मारक, नेहरू पार्क को शामिल करते हुए दौलतराज जी मेहता के घर तक का समस्त दायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. खुमा की ढाणी 2. उकाराम की ढाणी 3. राजेन्द्र सुरी कॉलोनी</p> |
| 36. | 36 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा रेल्वे स्टेशन रोड़ पर स्थित आहोर-चौराहा से पोस्ट ऑफिस क्वाटर्स तक बायां भाग को सम्मिलित करते हुए पोस्ट ऑफिस</p>  |

|     |    |  |
|-----|----|--|
|     |    | <p>क्वाटर्स से माजीसा फर्नीचर तक बायां भाग शामिल करते हुए बाल हनुमानजी मंदिर को शामिल करते हुए पुख जी माली को शामिल करते हुए बगाराम के घर तक दादावाडी तक का बायां भाग व दादावाडी से खीमाराम दरगाजी के मकान, सुदर्शन पब्लिक स्कूल, वेलाराम माली, रेपिड केरियर इंस्टीट्यूट एवं कॉपारेशन बैंक को सम्मिलित करते हुए बायां भाग को शामिल करते हुए सुखराम जैन को शामिल करते हुए डी.आर. चौधरी से निहालचंद भण्डारी के घर को शामिल करते हुए समस्त बायां भाग एवं निहालचंद भण्डारी के मकान से कलेक्ट्रेट परिसर को शामिल करते हुए आहोर चौराहा तक का समस्त बायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. पी.एल.टी कॉलोनी 2. शास्त्री नगर 3. दादावाडी</p>  |
| 37. | 37 | <p>इस वार्ड की सीमा बागोडा मुख्य सड़क पर लक्ष्मी मार्केट के पास रोड़ पर मांगीलाल के मकान तक का दायां भाग को शामिल करते हुए सुन्धा लाइट डेकोरेशन को शामिल करते हुए गणेशाराम, देवीलाल गहलोट को शामिल करते हुए छोगजी माली के मकान तक दायां भाग छोगजी माली के घर से रामदेव प्रिन्टर्स तक दायां भाग शामिल करते हुए रामदेव प्रिन्टर्स से दुर्गा निवास को शामिल करते हुए स्वास्तिक स्टोर तक का दायां भाग एवं स्वास्तिक स्टोर से बागोडा मुख्य सड़क पर स्थित लक्ष्मी मार्केट तक समस्त दायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. शास्त्री नगर 2. पुराना बस स्टेण्ड 3. सीटी पैलेस 4. सांची बस्ती</p>   |
| 38. | 38 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा मुख्य सड़क पर स्थित दुर्गा इलेक्ट्रीकलस से मोहन जी प्रजापत तक के दायां भाग को सम्मिलित करते हुए सुजाराम जी के मकान से ट्रांकरजी प्रजापत (लक्की ब्यूटी कलेक्शन) तक का दायां भाग को सम्मिलित करते हुए सरूपरा रोड़ तक का दायां भाग एवं सरूपरा रोड़ से रूप नगर रोड़ तक का दायां भाग व रूप नगर रोड़ से ऋषभ नगर चौराहा तक दायां भाग को सम्मिलित करते हुए ऋषभ नगर रोड़ से ऋषभ नगर, नहर को क्रोस करते हुए जलदाय विभाग ऑफिस को शामिल करते हुए माजीसा फर्नीचर तक का दायां भाग, माजीसा, माजीसा फर्नीचर से जैताराम के मकान को सम्मिलित करते हुए रामुदेवी उगाराम के मकान तक समस्त दायां भाग को सम्मिलित करते हुए तालाब के पास छोटुजी रामचन्द्रजी के मकान तक दायां भाग सम्मिलित करते हुए छोटु जी के मकान से पुनमाराम माली, पानी देवी के मकान को शामिल करते हुए एचपी पेट्रोल पम्प से दुर्गा इलेक्ट्रीकल तक का समस्त दायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. रूप नगर 2. ऋषभ नगर 3. सिंचाई विभाग 4.</p> |

|     |    |   |
|-----|----|---|
|     |    | बीएसएनएल ऑफिस 5. किसान छात्रावास के पास तालाबी की पाल   |
| 39. | 39 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा रूप नगर मुखय सड़क से छोटुजी हरजी माली एफ.सी.आई गोदाम की और जाने वाली रोड़ पर स्थित रेल्वे क्रोसिंग तक का समस्त बायां भाग व रेल्वे क्रोसिंग से पटरी के सहारे पुराना रेल्वे फाटक के सामने वाली महेशपुरा रोड़ तक का समस्त बायां भाग लेते हुए एफ.सी.आई गोदाम से पश्चिमी तरफ द्रानिधाम मंदिर तक का समस्त बायां भाग लेते हुए द्रानिधाम मंदिर से रूप नगर रोड़ तक का समस्त बायां भाग लेते हुए रूप नगर रोड़ पर स्थित छोटुजी हरजी माली तक का समस्त बायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. फतेह रॉयल्स 2. एफ.सी.आई कॉलोनी 3. सामतीपुरा रेल्वे फाटक के आस-पास की बस्ती</p> |
| 40. | 40 | <p>इस वार्ड की सीमा रेखा मुखय बागोड़ा रोड़ पर स्थित महादेव ग्रेनाइट से कार्यालय उप निदेशक कृद्गि (विस्तार) कार्यालय के बायें भाग को सम्मिलित करते हुए नैनाराम जी प्रजापत के मकान तक सम्मिलित करते हुए जोगाराम जी माली के मकान तक बायां भाग सम्मिलित करते हुए सरूपरा रोड़ से रेल्वे पटरी तक बायां भाग सम्मिलित करते हुए एवं रेल्वे फाटक से नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे बागोड़ा मुखय सड़क पर स्थित महादेव ग्रेनाइट तक का बायां भाग</p> <p>प्रमुख बस्तियां :- 1. सरूपरा रोड़ 2. द्वितीय फैंस 3. हनुमान नगर</p>   |

**आयुक्त**  
**नगर परिषद् जालोर**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।